

SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Off: 1E/4, JHANEWALAN EXTENSION, NEW DELHI 110055 INDIA
CIN: L51909DL1996PLC075875, Ph. No. 011-23541110
Website: www.skylineindia.co.in, Email: skylineindia96@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Monday, 30th September, 2024 at 11:00 A.M. at 1E/4, JHANEWALAN EXTENSION, NEW DELHI 110055 INDIA to transact the business as set out in AGM Notice dated 05th September 2024. The Notice convening the 28th AGM and the Annual Report for the financial year 2023-2024 have been sent to the members electronically to the e-mail ID registered by them with the Company/ Depository Participants and have been dispatched as per the permitted mode to those members who have not registered their e-mail ID's with the company/ Depository Participants on or before 30.08.2024.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Monday, 23rd September, 2024 being cut off date, to exercise their vote on business to be transacted at the meeting of the company. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of meeting (e-voting). The company has engaged CDSL provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

- E-voting period commences on Friday 27th September 2024 at 09:00 A.M. and ends on Sunday 29th September 2024 at 05:00 P.M.
- The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 29th September 2024.
- The share transfer book of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.
- Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e., 23rd September, 2024, should follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of the Company.
- The notice of AGM is also available on the company's website www.skylineindia.co.in and www.evotingindia.com
- In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer the FAQ's and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or call the toll free no. 1800225533 or send a mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com
- A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Scrutinizer's decision on the validity of the ballot shall be final.

Pursuant to the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015, members who do not have access to e-voting facility, may exercise their vote at the AGM of the AGM by submitting ballot forms which will be distributed at the venue of the AGM.

For Skyline India Limited

Chairman & Managing Director
DIN: 00482040Place: New Delhi
Date: 06.09.2024

WISEC GLOBAL LIMITED

Registered Office: NH-1, 2nd Floor, C-Block, Naraina Vihar, New Delhi-110028
CIN: L74140DL1991PLC049609 Email: wisecglobal@yahoo.com; Tel: 011-2577192-93

NOTICE OF ANNOUNCEMENT OF RESULT OF REMOTE E-VOTING/VOTING BY POLL DURING THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF THE COMPANY

In terms of Sections 96, 108, 109 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended, read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in compliance with applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, approval of the members was sought by means of Remote E-Voting and Voting by Poll. The Company has provided Remote E-Voting facility prior to the AGM in compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013; and at the time of AGM, the voting was conducted by Poll to cast their votes on Ordinary/ Special Resolutions, proposed in Notice of 33rd AGM dated Wednesday, 07th August, 2024.

The Board had appointed Ms. Anuradha Malik, Company Secretary in Practice as the Scrutinizer for conducting the Remote E-Voting Process/Voting by Poll.

The Scrutinizer has carried out the scrutiny of all the electronic votes received up to the last date of receipt i.e. Thursday, 05th September, 2024 till 5:00 P.M. and also the Poll conducted at the AGM held on Friday, 06th September, 2024 has been submitted her report on the same date i.e. Friday, 06th September, 2024 to the Board of Directors of the Company.

Based on the Scrutinizer's Report dated 06th September, 2024, the Board has declared this result of AGM as under:

S. No.	Particulars of the Resolutions	% of Total Valid Votes cast in favour of the Resolutions
1	To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2024 together with the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.	95.53
2	To appoint a Director in place of Mr. Rakesh Rampal (DIN: 01537696) who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.	96.19
3	To appoint Ms. Aliya (DIN: 10461493) as a Non-Executive Independent Director of the Company.	96.19
4	To appoint Mr. Mithlesh Gupta (DIN: 10665124) as a Non-Executive Independent Director of the Company.	95.53
5	To appoint Ms. Afrin (DIN: 10689215) as a Non-Executive Non-Independent Director of the Company.	95.53
6	To Alter Objects Clause of Memorandum of Association Of The Company.	95.53

Based on the above report of the Scrutinizer, the resolution no 1 to 6 as set out in the Notice of 33rd AGM of the Company dated 07th August, 2024 are deemed to have been duly approved by the members with requisite majority on Friday, 06th September, 2024.

The Results of the Remote E-Voting and Voting by Poll done at the AGM, were declared on Friday, 06th September, 2024. The Results along with Scrutinizer's Report are available at the registered office of the Company. The same are also hosted on the website of Ankit Assignments Limited being the Registrar and Share Transfer Agent of the Company; <https://www.ankitassignments.com> and are also available on the website of BSE Limited: <https://www.bseindia.com>

For Wisec Global Limited

Sd/-

Afrin

Director

Place: Delhi

Date: 06th September, 2024

प्रपत्र-3 विनियम-15(1)(क)/16(3) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरसी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. ओए/466/2022

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

Exh No. 23774

ज

D10

F-226002,

pmunit26@gmail.com

दिनांक 05.09.2024

गोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि

मानित लागत ₹0 210.66

यथोचित श्रेणी में पंजीकृत

व्रत की जाती है। उक्त कार्य

उत्तर प्रदेश सरकार की

किये जा सकते हैं तथा

न्यक्त, युनिट-26, सीएण्ड

ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य

एग एवं प्रोक्वैमेंटेड पोर्टल

(Corrigendum)

कोई प्रकाशन नहीं किया

पर अवलोकन करते रहें।

हस्ता/-

परियोजना प्रबन्धक

2016 के विनियमन 37ए

तहत आसानी से वसूली

क आमतौर पर करने हेतु

गपन में)

लोबल फ्रेगरेस प्राइवेट

गंसाजी से वसूली योग्य

है, 2016 के प्रावधानों

ई (परिसमापन प्रक्रिया)

रट देनदार की संपत्तियां

हस्तांतरित की जाएगी।

तर्गत दायर आईएसएस

अधिकार और माननीय

डूल 22.32.88.026 रुपये

nces@gmail.com पर

07.09.2024

तिथि 22.09.2024

26.09.2024

04.10.2024

09.10.2024

की समीक्षा पर आगे की

की या किसी भी प्रस्ताव

हस्ता/-

अतुल कुमार कंसल

परिसमापक

ईएस प्राइवेट लिमिटेड

035/2016-17/10088

/19, ओंकार नगर-बी,

शिवम दिल्ली, 110035

नल्स प्राइवेट लिमिटेड,

ए. स्पेड, सेक्टर-47,

ड, गुडगांव - 122018

T: +91- 9899027510

TED

IM) of the members of

rises Private Limited)

is Video Conferencing

venue i.e. at Registered

Block, Surajmal Vihar,

023-24, has been sent

are registered with the

the Annual Report is

ग्रीनहाईटेक वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन : U19201UP2023PLC182123

पंजीकृत कार्यालय : बी27/92 के 1 जवाहर नगर कॉलोनी, भेलपुरा
वाराणसी-221010, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन नं. +91-9336875025
ईमेल : info@greenhitech.org | वेबसाइट : www.greenhitech.org

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि ग्रीनहाईटेक वेंचर्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की पहली वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को बी27/92 के 1 जवाहर नगर कॉलोनी, भेलपुरा वाराणसी-221010, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दोपहर 03:00 बजे आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी 30 अगस्त 2024 (कट-ऑफ तिथि) तक कंपनी के डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट ('आरटीए') के साथ अनुमत मोड में उक्त के संबंधित पंजीकृत डाक पते पर पंजीकृत है। वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 6 सितंबर, 2024 को पूरा हो गया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.greenhitech.org और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <https://www.bseindia.com/> पर भी उपलब्ध हैं।

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और सेवा (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('लिविंग विनियम') के विनियमन 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों ('एसएस-2') के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म (<https://www.evoting.nsdl.com>) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है।

नियमों के नियम 20 के अनुसार, कंपनी ने एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय (व्यवसायों) पर मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सोमवार 23 सितंबर, 2024 को 'कट-ऑफ तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

- (क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम को अक्षम कर दिया जाएगा। सदस्यों को उक्त तिथि और समय से परे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। (ग) जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, <https://www.evoting.nsdl.com> पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और तरीके के लिए, सदस्य एजीएम की सूचना में बताए गए निर्देशों के माध्यम से जा सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या निम्नलिखित नंबर 022 - 4886 7000 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।

ग्रीनहाईटेक वेंचर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

नावद इकबाल

प्रबंध निदेशक

तिथि: 06.09.2024

स्थान: वाराणसी

डीआईएन: 06685505

RITCO LOGISTICS LIMITED

CIN: L60221DL2001PLC112167

Reg Address: 508, 5th Floor, Jyoti Shikhar Tower, District Centre, Janakpuri,
New Delhi-110058 | Phone No. 0124-4702300 | Email: cs@ritcologistics.com
Website: www.ritcologistics.com

PUBLIC NOTICE- 23rd ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 23rd Annual General meeting (AGM) of Ritco Logistics Limited ('the Company') will be convened through Video Conference (VC)/ other audio visual means ('OAVM') at 01:00 P.M. (IST) on Monday, September 30, 2024 without physical presence of the members at the venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') which also has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode (collectively referred to as Circulars). The venue of the said meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 508, 5th Floor, Jyoti Shikhar Tower, District Centre, Janakpuri, New Delhi-110058.

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and also in furtherance of 'Go-Green Initiative' of the government, the Notice of the 23rd AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 along with the Financial Statements and other Statutory Reports will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Registrar & Transfer Agents ('Registrar') Depository Participants ('DPs'), as the case may be. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Members may also note that the Company will be availing e-voting services of Link Intime India Pvt. Ltd. to enable its Members to cast their vote on resolutions set forth in the Notice